

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2016/पौष 23, 1937

No. 18]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2016/ PAUSA 23, 1937

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2016

10 जनवरी, 2016 दिन रविवार, को आयोजित सामान्य परिषद् की बैठक की कार्यवृत्त के अंश

मद संख्या 1/2016 (परिषद्)

संकल्प सं. 1/2016.—भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए बैठक आज यानि 10 जनवरी, 2016 को भारतीय विधिज्ञ परिषद् के परिसर में आयोजित किया गया था। उपाध्यक्ष के पद के लिए छोड़कर सभी पदों के लिए चुनाव आयोजित की गई थी। बैठक में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से अनुरोध पर श्री अपूर्व कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के वरिष्ठ सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने हेतु नियोजित किया गया।

पहले के संकल्पों के अनुसार, आज के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित सदस्यों का कार्यान्वयन दिनांक 18 अप्रैल, 2016 से 17 अप्रैल, 2018 तक लगातार पद धारण करेंगे। भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष पद हेतु, श्री विजय भट और श्री एस प्रभाकरण (सदस्य और सहअध्यक्ष क्रमशः) के द्वारा श्री मनन कुमार मिश्रा का नाम प्रस्तावित किया गया और अनुमोदन श्री बीरी सिंह सिनसिनवार एवं श्री देवीप्रसाद ढल के द्वारा किया गया। अन्य कोई नाम भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तावित नहीं किये गए थे।

श्री मनन कुमार मिश्रा सर्वसम्मति से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन दो वर्षों के लिए जिसका कार्यकाल दिनांक 18 अप्रैल, 2016 से शुरू होकर 17 अप्रैल, 2018 तक का होगा।

अशोक कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./318]

BAR COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th January, 2016

Extract of the minutes of meeting of the General Council of the Bar Council of India which was held on Sunday, the 10th January, 2016 at 10 AM in the premises of Bar Council of India at New Delhi.

Item No. 1/2016 (Council)

Resolution No.1/2016.—The meeting for election of office-bearers of the Bar Council of India was held in the premises of Bar Council of India today i.e. on 10.01.2016. The election for all the posts were held except for the post of Vice-Chairman. The meeting was, presided over by Mr. Apurba Kumar Sharma, Senior Advocate and Senior Member of BCI on the unanimous request of the members present in the meeting.

As per earlier resolutions, members elected as office-bearers today are to hold office w,e,f, 18th April, 2016 and will continue to hold office till 17th April, 2018. For the post of Chairman, the name of Mr. Manan Kumar Mishra was proposed by Mr. Vijay Bhatt and Mr. S. Prabakaran, Member & Co-Chairman respectively and was seconded by Mr. Biri Singh Sinsinwar and Mr. Debi Prasad Dhal. No other name was proposed for the post of Chairman, BCI.

Mr. Manan Kumar Mishra was declared elected unanimously as the Chairman of Bar Council of India for a period of two years i.e. w.e.f. 18th April, 2016 to 17th April, 2018.

ASHOK KUMAR PANDEY, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./318]